


केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील)		
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX		
वस्तु एवं सेवा	GST Building, 7 th Floor	
कर भवन	Near Polytechnic	
सातवीं मंजिल, पॉलिटेक्निक के पास	Ambavadi, Ahmedabad-	
आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015	380015	
079-26305065	टेलिफैक्स : 079-26305136	

क फाइल संख्या : File No : **V2/17/GNR/2018-19**

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: **AHM-EXCUS-003-APP-65-18-19**

दिनांक Date : **09.08.18** जारी करने की तारीख Date of Issue:

श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Passed by **Shri Uma Shanker** Commissioner (Appeals) Ahmedabad

ग अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश :
AHM-CEX-003-ADC-AJS-028-17-18 दिनांक : **05-03-2018** से सृजित

Arising out of Order-in-Original: **AHM-CEX-003-ADC-AJS-028-17-18**, Date: **05-03-2018**
Issued by: Assistant Commissioner, CGST, Div: Kalol, Gandhinagar
Commissionerate, Ahmedabad.

घ अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the **Appellant** & Respondent

M/s. Vishakha Poyfab Pvt Ltgd

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।


(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित हैं।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.



- (ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
- (c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35- णबी/35-इ के अंतर्गत:-


Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहाँ रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहाँ रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखाकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any



nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रू.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्टेट) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1984 की धारा 35F के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014 की संख्या 25) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "माँग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगा।

For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,


Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute or penalty, where penalty alone is in dispute."




ORDER

M/s. Vishakha Polyfab Pvt. Ltd., Plot Number 549/2, Village Vadsar, Kalol (*hereinafter referred to as 'appellants'*) have filed the present appeal against the Order-in-Original number AHM-CEX-003-AC-27-28-2018 dated 05.03.2018 (*hereinafter referred to as 'impugned order'*) passed by the then Assistant Commissioner, Central GST, Kalol Division, Gandhinagar (*hereinafter referred to as 'adjudicating authority'*).

2. The facts of the case are that the appellants are engaged in the manufacture of multilayered plastic extruded lay flat tubing (both plain and printed), printed bags, printed pouches and zip fresh pouches (for storing vegetables). They also generate waste in all categories and their basic raw material is plastic granules. They were registered with the Central Excise Department having registration number AAACV6439RXM001. During the course of audit for the period from 2013-14 to 2015-16, conducted by CERA party, it was observed that the appellants had carried out trading activities (high sea sale-purchase) and had availed Cenvat credit on common input services used for both manufacturing of excisable goods and trading of goods. However, they did not maintain separate records used for providing the trading activities. It was also noticed that they did not reverse the Cenvat credit under Rule 6(3) of the Cenvat Credit Rules, 2004.

3. Accordingly, a show cause notice, dated 04.05.2017, was issued to the appellants, for the period from 2012-13 to 2016-17. Subsequently, further information pertaining to the trading, for the period from January 2017 to June 2017, was called for and thereafter, another show cause notice dated 24.08.2017 was issued to the appellants, for the period from January 2017 to June 2017. Both the said show cause notices were adjudicated by the adjudicating authority vide the impugned order. The adjudicating authority, thus, confirmed the demand of ₹ 34,64,488/- (₹ 29,15,829/- for the period from 2012-13 to 2016-17 + ₹ 5,48,659/- for the period from January 2017 to June 2017) under Rule 14 of Cenvat Credit Rules, 2004 read with Section 11A of the Central Excise Act, 1944 and ordered to appropriate an amount of ₹ 12,428/- (₹ 11,010/- + ₹ 1,418/-) already reversed by the appellants. He also ordered to recover interest under the provisions of Rule 14 of Cenvat Credit Rules, 2004 read with Section 11AA of the Central Excise Act, 1944. He further imposed equal penalty under Rule 15 of Cenvat Credit Rules, 2004 read with Section 11AC of the Central Excise Act, 1944.




4. Being aggrieved with the impugned order the appellants have preferred the present appeal. The appellants have submitted that the impugned order is not proper, legal and sustainable on the ground that it was passed in routine and superfluous manner. They further claimed that on being pointed out by the audit team, the appellants agreed with the audit objection and paid an amount of ₹11,010/- along with interest of ₹4,440/- for the period from July 2013 to December 2014. The audit party settled the para. Thus, the show cause notice with respect to the period July 2013 to December 2014 ought not to have been issued. The appellants further argued that the adjudicating authority did not consider the contentions raised by the appellants in their reply. The impugned order has been passed without discussing the core submissions of the appellants and without assigning fair reasons for confirming the demand. The appellants pleaded before me that the adjudicating authority rejected the case laws submitted by the former without giving any reason for doing so.

5. Personal hearing in the matter was granted and held on 27.06.2018. Shri P. G. Mehta, Advocate, and Shri Bharat Patel, Authorized Signatory, appeared on behalf of the appellants and reiterated the contents of appeal memorandum. Shri P. G. Mehta stated that the adjudicating authority did not consider the case laws and their submission dated 15.12.2017 and the facts of reversal.


6. I have carefully gone through the impugned order, appeal memorandum and written as well as oral submission made at the time of personal hearing. I now proceed to decide the case as per merit and available records.

7. On going through the arguments of the appellants in their grounds of appeal, in paragraph 14, I found that the appellants were aggrieved not because they were ordered to reverse a portion of the Cenvat credit availed but because their contentions were not heard and discussed by the adjudicating authority. The appellants, in their appeal memo and during the course of personal hearing, have repeatedly pleaded that their submission was not considered by the adjudicating authority. If this is the case, then I consider the entire proceeding a pure mockery of judgment as no one should be punished without being heard. The first and foremost principle of natural justice is what is commonly known as *audi alteram partem* rule. It says that no one should be condemned unheard. I consider that the Adjudication proceedings shall be conducted by observing



principles of natural justice. The principles of natural justice must be followed by the authorities at all levels in all proceedings under the Act or Rules and the order passed in violation of the principles of natural justice is liable to be set aside by Appellate Authority. Natural justice is the essence of fair adjudication, deeply rooted in tradition and conscience, to be ranked as fundamental. The purpose of following the principles of natural justice is the prevention of miscarriage of justice. Natural justice has certain cardinal principles, which must be followed in every proceeding. Judicial and quasi-judicial authorities should exercise their powers fairly, reasonably and impartially in a just manner and they should not decide a matter on the basis of an enquiry unknown to the party, but should decide on the basis of material and evidence on record. Their decisions should not be biased, arbitrary or based on mere conjectures and surmises. The orders passed by the authorities should give reason for arriving at any conclusion showing proper application of mind. Violation of either of them could in the given facts and circumstances of the case, vitiate the order itself. The Supreme Court in the case of S.N. Mukherjee vs Union of India [(1990) 4 SCC 594], while referring to the practice adopted and insistence placed by the Courts in United States, emphasized the importance of recording of reasons for decisions by the administrative authorities and tribunals. It said "administrative process will best be vindicated by clarity in its exercise". The Hon'ble Supreme Court has further elaborated the legal position in the case of Siemens Engineering and Manufacturing Co. of India Ltd. v. Union of India and Anr. [AIR 1976 SC 1785], as under;

".....If courts of law are to be replaced by administrative authorities and tribunals, as indeed, in some kinds of cases, with the proliferation of Administrative Law, they may have to be so replaced, it is essential that administrative authorities and tribunals should accord fair and proper hearing to the persons sought to be affected by their orders and give sufficiently clear and explicit reasons in support of the orders made by them. Then alone administrative authorities and tribunals exercising quasi-judicial function will be able to justify their existence and carry credibility with the people by inspiring confidence in the adjudicatory process. The rule requiring reasons to be given in support of an order is, like the principle of audi alteram partem, a basic principle of natural justice which must inform every quasi-judicial process



and this rule must be observed in its proper spirit and mere pretence of compliance with it would not satisfy the requirement of law. ...".

The adjudicating authority should, therefore, bear in mind that no material should be relied in the adjudication order to support a finding against the interests of the party unless the party has been given an opportunity to rebut that material. Whenever an order is struck down as invalid being in violation of principles of natural justice, there is no final decision of the case and fresh proceedings are left upon. All that is done is to vacate the order assailed by virtue of its inherent defect, but the proceedings are not terminated.

8. In light of the above discussion, I remand back the matter to the present adjudicating authority to decide the case afresh following the principle of natural justice as per the discussion above. The adjudicating authority should discuss all the submissions made by the appellants, in the impugned order. The appellants are hereby directed to submit all the required documents and case laws and provide utmost cooperation to the adjudicating authority.

9. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9. The appeals filed by the appellant stand disposed off in above terms.

उमा शंकर

(उमा शंकर)

CENTRAL TAX (Appeals),
AHMEDABAD.


ATTESTED

S. DUTTA
(S. DUTTA) 29/08/18

SUPERINTENDENT,

CENTRAL TAX (APPEALS),

AHMEDABAD.



To,
M/s. Vishakha Polyfab Pvt. Ltd.,
Plot Number 549/2, Village Vadsar,
Kalol.

Copy to:

- 1) The Chief Commissioner, Central Tax, Ahmedabad.
- 2) The Commissioner, Central Tax, Gandhinagar.
- 3) The Dy./Asst. Commissioner, Central Tax, Kalol Division.
- 4) The Asst. Commissioner (System), Central Tax Hq., Gandhinagar.

~~5) Guard File.~~

~~6) P. A. File.~~

